

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 11-11-2021

=====

लूट का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्त थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल व अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार

=====

आज दिनांक 11-11-2021 को थाना खुर्जा नगर पुलिस को वीरेश्वर दयाल उर्फ ब्रिजेश गुप्ता नाम के व्यक्ति के साथ जो आढती का काम करते हैं, के साथ तीन अभियुक्तों द्वारा अलीगढ़ चुंगी पर लूट का प्रयास करने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर एक अभियुक्त को जनता के सहयोग से समय करीब प्रातः 10.30 बजे अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया तथा उसके दो साथी मौके पर बाइक छोड़कर कालिंदी कुंज कॉलोनी की तरफ भाग गये। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा कर कॉबिंग करते हुए कुछ दूरी पर दोनो अभियुक्तों को कालिंदी कुंज के मैन चौक से अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- दीपक पुत्र विजयपाल निवासी म0न0 387 गगन विहार गली न0 10 सहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
- 2- मोहित पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम सराय जगन्नाथ थाना सिकंद्राबाद जनपद बुलंदशहर।
- 3- राहुल यादव पुत्र रामसहाय निवासी ग्राम महारुपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ हाल पता गगन विहार थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी-

1. 01 मोटर साइकिल चोरी की पैशन प्रो डीएल 7 एसबीएन 6057
2. 03 तमंचे 315 बोर 03 जिन्दा कारतूस

वादी वीरेश्वर दयाल उर्फ बृजेश गुप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम गुप्ता निवासी मोहल्ला बुर्ज उस्मान थाना खुर्जा नगर बुलंदशहर जो खुर्जा नवीन मंडी में आढती का कार्य करते हैं उनकी मोटरसाइकिल की डिग्गी में 02 लाख रुपये तथा जेब में 10 हजार रुपये थे। जो आज सुबह समय करीब 10:25 पर अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर से नवीन मंडी जा रहे थे कि जैसे ही अलीगढ़ चुंगी पर पहुंचे तो पीछे से बाइक पर सवार तीनों अभियुक्तों द्वारा ओवर टैक कर उनके साथ लूटपाट करने का प्रयास किया गया। पुलिस की सक्रियता एवं जनसहयोग से एक लूटपाट की घटना होने से पूर्व ही तीनों अभियुक्तों को अवैध असलहा मय कारतूस व चोरी की पैशन प्रो बाइक सहित गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मोहित उपरोक्त द्वारा पिछले 03 दिनों से ब्रिजेश गुप्ता की रैकी की जा रही थी क्योंकि उसका खुर्जा मंडी में नियमित आना जाना था। अभियुक्तों द्वारा बरामद पैशन प्रो मोटर साइकिल को करीब 15 दिन पूर्व नंद नगरी डिस्टिक पार्क दिल्ली से चोरी करना बताया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।